




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मई 9, 2002/वैशाख 19, 1924

No. 425]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2002/VAISAKHA 19, 1924

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2002

क्रा.आ. 500(अ).— केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 का कि.मी. 18.8 से कि.मी. 199 (दिल्ली-आगरा खंड) खंड भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) की अधिसूचना सं० का०आ० 78 (अ) तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दिया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल-लोक वित्तपोषित परियोजनाओं के उपयोग के लिए फीस) नियम, 1997 के नियम 3, 5, 7 और 9 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खंड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए शुल्क वसूल करना) नियम, 1997 के नियम 5 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 के उक्त खंड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्ग्रहीत और संदत्त की जाएगी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

कि.मी. 18.8 से कि.मी. 108.9 (हरियाणा और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 के दिल्ली-आगरा खंड) के बीच खंड के उपयोगकर्ताओं से वसूल की जाने वाली पथकर फीस की दरें

कि.मी. 72-पथकर चौकी पर संग्रहण

क्रम सं.	यानों की विशिष्टियाँ	प्रति यान, प्रति ट्रिप प्रसारित की जाने वाली फीस की दरें (रुपयों में)
1.	कार या जीप या वैन	35 रुपए
2.	हल्के वाणिज्यिक यान	60 रुपए
3.	ट्रक/ बस/ बहुधुरी यान/ भारी निर्माण मशीनरी	125 रुपए

प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् भारत सरकार द्वारा इन दरों का कालिकतः पुनर्विलोकन किया जाएगा ।

टिप्पणः

1. जब उसी यान को एक दिन में एक से अधिक बार परिमाणित पथकर सड़क खंड पार करना हो तो उपयोगकर्ता को यह विकल्प होगा कि वह पहली बार खंड को पार करते समय ऊपर विनिर्दिष्ट दरों का डेढ़ गुणा संदाय कर दे या यदि यान को खंड को पूर्ण मास या उससे भी अधिक लम्बी अवधि के लिए निरंतर और बार बार पार करना पड़ता है तो यान का स्वामी, तीस एकल दरों के बराबर-प्रमारों का संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है ।

2. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन कोई फीस संदेय या संगृहीत नहीं होगी, अर्थात् :-

- (i) रक्षा यान ;
- (ii) अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान;
- (iii) पुलिस यान ;
- (iv) अग्नि शमन यान ;
- (v) एंबुलेंस ;
- (vi) अत्येष्टि वैन ;
- (vii) डाक व तार विभाग के यान ;
- (viii) ड्यूटी पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के यान
- (ix) निम्नलिखित से संबंधित यान :-

(क) भारत का राष्ट्रपति ;

(ख) भारत का उपराष्ट्रपति ;

(ग) केन्द्रीय और राज्य मंत्री ;

(घ) लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मंडलों में विपक्ष के नेता जिनकी प्रास्थिति कैबिनेट मंत्री की हो ;

- (छ) राज्यों के राज्यपाल ;
- (घ) संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल ;
- (ङ) केन्द्रीय और राज्य विधान मंडलों के अध्यक्ष या सभापति ;
- (ज) स्थानीय निर्वाचित निकायों के कार्यकारी पार्षद ;
- (झ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति ;
- (अ) “सी डी” (राजनयिक कार) प्रतीक वाली कारों का उपयोग कर रहे भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक ;
- (ए) संसद सदस्य और राज्य विधान सभाओं/विधान परिषदों के सदस्य उनके अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर ;

3. ऊपर उल्लिखित दूरें पथकर चौकी के आसपास सहजदृश्य स्थानों पर सन्निर्मित किसी बोर्ड पर हिन्दी, अंग्रेजी और संबद्ध क्षेत्रों की प्रादेशिक भाषा में सुपाठ्य रूप में लिखित या मुद्रित रूप में, संप्रदर्शित की जाएगी जिसे चालक की सीट से पढ़ा जा सके । यांत्रिक यानों का प्रत्येक चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, खंड को पार करने से पूर्व या इसे पार करने के पश्चात्, पास-अवरोधक (क्रास बार) पर अपना यान रोकेगा और फीस संग्रहण चौकी पर यानों की बाबत उद्ग्रहणीय फीस का संदाय करेगा । खंड को पार करने वाले किसी यांत्रिक यान की बाबत फीस के संग्रहण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति बदले में नीचे दिए गए प्रस्म ‘क’ में एक रसीद दो प्रतियों में तैयार करेगा और उक्त रसीद की एक प्रति यांत्रिक यान के चालक या स्वामी या भारसाधक व्यक्ति को देगा ।

प्रस्म ‘क’

रसीद सं.

फीस के संदाय के लिए रसीद ।

खंड /स्थायी पुल का नाम ।

1. रजिस्ट्रीकरण सं० के साथ यांत्रिक यान का विवरण ।
2. लदा हुआ है अथवा बिना लदा हुआ अथवा यात्रियों सहित अथवा यात्रियों के बिना ।
3. जावक यात्रा का समय और तारीख ।
4. चालक और /अथवा स्वामी का नाम ।
5. संदत्त फीस की राशि ।

[सं. आर डब्ल्यू/एन एच-12037/164/2001/यू पी/एन एच-2]

नरेश कुमार सिन्हा, महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th May, 2002

S.O. 500(E).—Whereas Central Government has, in exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), entrusted the stretch of National Highway No. 2 from Km. 18.8 to Km. 199 (Delhi-Agra Section) to the National Highways Authority of India vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 78 (E), dated the 4th February 1999.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with rules 3,5, 7 and 9 of the National Highways (Fees for the use of National Highways Section and permanent Bridge-Public Funded Project) Rules, 1997 and rule 5 of the National Highways (Collection of Fees by any Person for the use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and paid fee on mechanical vehicles for the said section of National Highway No. 2 at the rates specified in the Schedule given below and hereby authorises the National Highways Authority of India or its authorised representative to collect and retain fee at the rates specified in the said Schedule from the date of publication of this notification, namely:-

SCHEDULE

Rate of Toll fee to be recovered from the users of stretch between Km. 18.8 to Km. 108.9 (Delhi-Agra Section of National Highway No. 2 in Haryana and Uttar Pradesh)

Toll collection at Km 72 - Toll Booth

S.No.	Particulars of Vehicles	Rates of fee to be charged per vehicle per trip (in Rs.)
1.	Car or Jeep or Van	Rs. 35/-
2.	Light Commercial vehicle	Rs. 60/-
3.	Trucks /Buses/Multi-Axle Vehicles/Heavy Construction Machinery	Rs. 125/-

The rates shall be reviewed periodically by the Government of India after every three years.

Note :-

1. When the same vehicle has to cross the defined Toll Road stretch more than once in a day, the user shall have the option to pay one and half times the rates specified above while crossing the section in the first trip itself, or if the vehicle has to cross the section continuously and quite frequently for the entire month or even beyond that, for much longer period, the vehicle owner can have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times of single rates.

2. No fee shall be payable or collected under this notification on the following types of vehicles, namely:-

- (i) Defence vehicles;
- (ii) Vehicles with VIP symbols;
- (iii) Police vehicles;
- (iv) Fire fighting vehicles;
- (v) Ambulances;
- (vi) Funeral Vans;
- (vii) Post and Telegraph Department vehicles;
- (viii) Central and State Government vehicles on duty; and
- (ix) the vehicles belonging to the :-
 - a) President of India;
 - b) Vice President of India;
 - c) Central and State Ministers;
 - d) Leader of Opposition in Lok Sabha, Rajya Sabha and State Legislatures having the status of a Cabinet Minister;
 - e) Governors of States;
 - f) Lieutenant Governors of Union territories;
 - g) Speakers or Chairmen of the Central and State Legislatures;
 - h) Executive Councillors of Local Elected Bodies;
 - i) Foreign dignitaries on State visit to India;
 - j) Foreign Diplomats stationed in India using cars with "CD" (Car Diplomatic) symbols; and
 - k) Members of Parliament, and Members of State Assemblies/Legislative Councils within their respective constituencies.

3. The above mentioned rates shall be conspicuously displayed on a Board erected at conspicuous place in the vicinity of the Toll Plaza booth legibly written or printed in Hindi, English and the Regional language of the areas concerned on Boards, which should be readable from driver's seat. Every driver, owner or person in-charge of the mechanical vehicle shall, before crossing the section or after having crossed it, stop his vehicle at the cross bar and pay the fee leviable in respect of the vehicle at the fee collection booth. The person authorised by the National Highways Authority of India to collect fee in respect of any mechanical vehicle crossing the section shall in return, prepare a receipt in duplicate in Form 'A' below and hand over one copy of the receipt to the driver or owner or person in-charge of the mechanical vehicle.

R.No.

FORM 'A'

Receipt for payment of fee.

Name of Section/Permanent Bridge.

1. Description of mechanical vehicle with Registration number.
2. Whether laden or unladen or with or without passengers.

3. Time and date of outward journey.
4. Name of driver and/or owner.
5. Amount of fee paid.

[No. RW/NH-12037/164/2001/UP/NH-2]

N. K. SINHA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2002

का.आ. 501(अ).—केंद्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 का कि.मी. 18.8 से कि.मी. 199 (दिल्ली-आगरा खंड) खंड भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) की अधिसूचना सं० का०आ० 78 (अ) तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दिया है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल-लोक वित्तपोषित परियोजनाओं के उपयोग के लिए फीस) नियम, 1997 के नियम 3, 5, 7 और 9 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खंड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए शुल्क वसूल करना) नियम, 1997 के नियम 5 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 के उक्त खंड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्ग्रहीत और संदत्त की जाएगी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

कि.मी. 108.9 से कि.मी. 199 (उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 के दिल्ली-आगरा खंड) के बीच खंड के उपयोगकर्ताओं से वसूल की जाने वाली पथकर फीस की दरें
कि.मी. 160-पथकर चौकी पर संग्रहण

क्रम सं.	यानों की विशिष्टियाँ	प्रति यान, प्रति ट्रिप प्रभासित की जाने वाली फीस की दरें (रुपयों में)
1.	कार, या जीप या वैन	35 रुपए
2.	हल्के वाणिज्यिक यान	60 रुपए
3.	ट्रक/ बस/ बहुधुरी यान/ भारी निर्माण मशीनरी	125 रुपए

प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् भारत सरकार द्वारा इन दरों का कालिकतः पुनर्विलोकन किया जाएगा।

टिप्पण:

1. जब उसी यान को एक दिन में एक से अधिक बार परिभाषित पथकर सड़क खंड पार करना हो तो उपयोगकर्ता को यह विकल्प होगा कि वह पहली बार खंड को पार करते समय ऊपर विनिर्दिष्ट दरों का डेढ़ गुणा संदाय कर दे या यदि यान को खंड को पूर्ण मास या उससे भी अधिक लम्बी अवधि के लिए निरंतर और बार बार पार करना पड़ता है तो यान का स्वामी, तीस एकल दरों के बराबर प्रभारों का संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है ।

2. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन कोई फीस संदेय या संगृहीत नहीं होगी, अर्थात् :-

- (i) रक्षा यान ;
- (ii) अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान;
- (iii) पुलिस यान ;
- (iv) अग्नि शमन यान ;
- (v) एंबुलेंस ;
- (vi) अंत्येष्टि वैन ;
- (vii) डाक व तार विभाग के यान ;
- (viii) छयूटी पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के यान

(ix) निम्नलिखित से संबंधित यान :-

- (क) भारत का राष्ट्रपति ;
- (ख) भारत का उपराष्ट्रपति ;
- (ग) केन्द्रीय और राज्य मंत्री ;
- (घ) लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मंडलों में विपक्ष के नेता जिनकी प्रास्थिति कैबिनेट मंत्री की हो ;
- (ङ) राज्यों के राज्यपाल ;
- (च) संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल ;
- (छ) केन्द्रीय और राज्य विधान मंडलों के अध्यक्ष या सभापति ;
- (ज) स्थानीय निर्वाचित निकायों के कार्यकारी पार्षद ;
- (झ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति ;
- (ञ) “सी डी” (राजनयिक कार) प्रतीक वाली कारों का उपयोग कर रहे भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक ;

(ट) संसद सदस्य और राज्य विधान सभाओं/विधान परिषदों के सदस्य उनके अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर ;

3. ऊपर उल्लिखित दरे पथकर चौकी के आसपास सहजदृश्य स्थानों पर सन्निर्मित किसी बोर्ड पर हिन्दी, अंग्रेजी और संबद्ध क्षेत्रों की प्रादेशिक भाषा में सुपाठ्य रूप में लिखित या मुद्रित रूप में, संप्रदर्शित की जाएगी जिसे चालक की सीट से पढ़ा जा सके। यांत्रिक यानों का प्रत्येक चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, खंड को पार करने से पूर्व या इसे पार करने के पश्चात्, पार-अवरोधक (क्रास बार) पर अपना यान रोकेगा और फीस संग्रहण चौकी पर यानों की बाबत उद्ग्रहणीय फीस का संदाय करेगा। खंड को पार करने वाले किसी यांत्रिक यान की बाबत फीस के संग्रहण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति बट्टे में नीचे दिए गए प्रारूप 'क' में एक रसीद दो प्रतियों में तैयार करेगा और उक्त रसीद को एक प्रति यांत्रिक यान के चालक या स्वामी या भारसाधक व्यक्ति को देगा।

रसीद सं.

प्रारूप 'क'

फीस के संदाय के लिए रसीद।

खंड /स्थायी पुल का नाम।

1. रजिस्ट्रीकरण सं० के साथ यांत्रिक यान का विवरण।
2. लदा हुआ है अथवा बिना लदा हुआ अथवा यात्रियों सहित अथवा यात्रियों के बिना।
3. जावक यात्रा का समय और तारीख।
4. चालक और /अथवा स्वामी का नाम।
5. संदत्त फीस की राशि।

[सं. आर डब्ल्यू/एन एच-12037/164/2001/यू पी/एन एच-2]

नरेश कुमार सिन्हा, महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2002

S.O. 501(E).— Whereas Central Government has, in exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), entrusted the stretch of National Highway No. 2 from Km. 18.8 to Km. 199 (Delhi-Agra Section) to the National Highways Authority of India vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 78 (E), dated the 4th February 1999.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with rules 3, 5, 7 and 9 of the National Highways (Fees for the use of National Highways Section and permanent Bridge-Public Funded Project) Rules, 1997 and rule 5 of the National Highways (Collection of Fees by any Person for the use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge

on National Highways) Rules, 1997, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and paid fee on mechanical vehicles for the said section of National Highway No. 2 at the rates specified in the Schedule given below and hereby authorises the National Highways Authority of India or its authorised representative to collect and retain fee at the rates specified in the said Schedule from the date of publication of this notification, namely:-

SCHEDULE

Rate of Toll fee to be recovered from the users of stretch between Km. 108.9 to Km. 199 (Delhi-Agra Section of National Highway No. 2 in Uttar Pradesh)
Toll collection at Km 160 - Toll Booth

S.No.	Particulars of Vehicles	Rates of fee to be charged per vehicle per trip (in Rs.)
1.	Car or Jeep or Van	Rs. 35/-
2.	Light Commercial vehicle	Rs. 60/-
3.	Trucks /Buses/Multi-Axle Vehicles/Heavy Construction Machinery	Rs. 125/-

The rates shall be reviewed periodically by the Government of India after every three years.

Note :-

1. When the same vehicle has to cross the defined Toll Road stretch more than once in a day, the user shall have the option to pay one and half times the rates specified above while crossing the section in the first trip itself, or if the vehicle has to cross the section continuously and quite frequently for the entire month or even beyond that, for much longer period, the vehicle owner can have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times of single rates.

2. No fee shall be payable or collected under this notification on the following types of vehicles, namely:-

- (i) Defence vehicles;
- (ii) Vehicles with VIP symbols;
- (iii) Police vehicles;
- (iv) Fire fighting vehicles;
- (v) Ambulances;
- (vi) Funeral Vans;
- (vii) Post and Telegraph Department vehicles;
- (viii) Central and State Government vehicles on duty; and
- (ix) the vehicles belonging to the :-
 - a) President of India;
 - b) Vice President of India;
 - c) Central and State Ministers;
 - d) Leader of Opposition in Lok Sabha, Rajya Sabha and State Legislatures having the status of a Cabinet Minister;
 - e) Governors of States;

- f) Lieutenant Governors of Union territories;
 - g) Speakers or Chairmen of the Central and State Legislatures;
 - h) Executive Councillors of Local Elected Bodies;
 - i) Foreign dignitaries on State visit to India;
 - j) Foreign Diplomats stationed in India using cars with "CD" (Car Diplomatic) symbols; and
 - k) Members of Parliament, and Members of State Assemblies/Legislative Councils within their respective constituencies.
3. The above mentioned rates shall be conspicuously displayed on a Board erected at conspicuous place in the vicinity of the Toll Plaza booth legibly written or printed in Hindi, English and the Regional language of the areas concerned on Boards, which should be readable from driver's seat. Every driver, owner or person in-charge of the mechanical vehicle shall, before crossing the section or after having crossed it, stop his vehicle at the cross bar and pay the fee leviable in respect of the vehicle at the fee collection booth. The person authorised by the National Highways Authority of India to collect fee in respect of any mechanical vehicle crossing the section shall in return, prepare a receipt in duplicate in Form 'A' below and hand over one copy of the receipt to the driver or owner or person in-charge of the mechanical vehicle.

FORM 'A'

R.No.

Receipt for payment of fee.

Name of Section/Permanent Bridge.

1. Description of mechanical vehicle with Registration number.
2. Whether laden or unladen or with or without passengers.
3. Time and date of outward journey.
4. Name of driver and/or owner.
5. Amount of fee paid.

[No. RW/NH-12037/164/2001/UP/NH-2]

N. K. SINHA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.